



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 वैशाख 1931 (श०)  
(सं० पटना 184) पटना, मंगलवार, 5 मई 2009

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

5 मई 2009

सं० बी१-३-१०४/२००९-२७—लोक सभा आम निर्वाचन, २००९ के अवसर पर चतुर्थ चरण के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या ४६४/२००९(४), दिनांक ५ मई २००९ सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कुमार अंशुमाली,

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मई 2009/15 बैशाख, 1931 (शक)

**सं० 464/2009 (4)—यतः**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-56 के साथ पठित धारा-30 के अधीन जारी दिनांक 11 अप्रैल, 2009 की अपनी अधिसूचना सं० 464/2009 (4) द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य में 29-नालन्दा और 31-पाटलीपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में दिनांक 7 मई, 2009 के चौथे चरण के मतदान के लिए मतदान का समय 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक नियत किया था ।

**यतः**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तथा वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि, बिहार राज्य में 7 मई 2009 के चौथे चरण मतदान के लिए बलों की सीमित उपलब्धता तथा उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण 29 नालन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 174-इस्लामपुर और 175-हिलसा विधानसभा खंडों और 31-पाटलीपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 189-मसौढ़ी (अ.जा.) 190-पालीगंज विधानसभा खंडों के संदर्भ में मतदान 7.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक करवाया जाना अनुकूल है ।

अतः, अब, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा-21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 11 अप्रैल, 2009 की अपनी अधिसूचना सं० 464/2009 (4) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में बिहार राज्य में 29-नालन्दा और 31-पाटलीपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सामने स्तंभ (1) एवं (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

## बिहार

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० तथा नाम	मतदान की तारीख	मतदान का समय
1	2	3
<b>29-नालन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र</b>		
174-इस्लामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 175-हिलसा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	7 मई, 2009 (गुरुवार)	7.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक
171-अस्थायी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 172-बिहारशरीफ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 173-राजगीर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 176- नालन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 177-हरनौत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	7 मई, 2009 (गुरुवार)	7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक
<b>31-पाटलीपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र</b>		
189-मसौढ़ी(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 190-पालीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	7 मई, 2009 (गुरुवार)	7.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक
186-दानापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 187-मनेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 188-फूलवारी (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 191-बिक्रम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	7 मई, 2009 (गुरुवार)	7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक

आदेश से,  
आर. के. श्रीवास्तव,  
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated the 5th May 2009/ 15 Baisakha,  
1931 (Saka)*

No. 464/2009 (4) – WHEREAS, the Election Commission of India by its notification No. 464/2009 (4), dated 11<sup>th</sup> April, 2009 issued under Section 30 read with Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) had fixed “Hours of Poll” from 7:00 AM to 5:00 PM in respect of 29-Nalanda & 31-Patliputra Parliamentary Constituencies in the state of Bihar for the 4<sup>th</sup> phase of poll on 7<sup>th</sup> May 2009.

WHEREAS, after considering the reports of Chief Electoral Officer, Bihar and after taking into account all other material circumstances, the Election Commission is satisfied that it is desirable to conduct the poll from 7:00 AM to 3:00 PM in respect of 174-Islampur and 175-Hilsa assembly segments of 29-Nalanda Parliamentary Constituency and 189-Masaurhi (SC) and 190-Paliganj assembly segments of 31-Patliputra Parliamentary Constituency for the 4<sup>th</sup> phase of poll on 7<sup>th</sup> May, 2009 in the State of Bihar due to limited availability of forces and extremist activity.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Election Commission of India hereby makes the following amendment in its notification No. 464/2009(4) dated 11th April, 2009 referred to above, namely: -

In the schedule to the said notification, for the existing entry in column (1) & (3), against 29-Nalanda and 31-Patliputra Parliamentary Constituencies in the state of Bihar, the following entry shall be substituted, namely: -

**BIHAR**

<b>No. &amp; Name of Parliamentary Constituency</b>	<b>Date of Poll</b>	<b>Hours of Poll</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1 - BIHAR</b>		
<b>29-Nalanda PC</b>		
174-Islampur AC & 175-Hilsa AC,	<b>7th May, 2009 (Thursday)</b>	<b>7.00AM to 3.00 PM</b>
171-Asthawan AC, 172-Biharsharif AC, 173-Rajgir (SC) AC, 176-Nalanda AC & 177-Harnaut AC	<b>7th May, 2009 (Thursday)</b>	<b>7.00AM to 5.00 PM</b>

<b>31-Pataliputra PC</b>		
189-Masaurhi (SC)AC & 190-PaliganjAC	<b>7th May, 2009 (Thursday)</b>	<b>7.00AM to 3.00 PM</b>
186-Danapur AC , 187-ManerAC, 188-Phulwari (SC) AC, & 191-Bikram AC.	<b>7th May, 2009 (Thursday)</b>	<b>7.00AM to 5.00 PM</b>

By order,  
R.K. SRIVASTAVA,  
*Secretary to the Election Commission of India.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 184-571+300-डी0टी0पी0।